

# नीति प्रस्ताव अनुवाद

---

## एपीएनआईसी 42 (APNIC 42) में चर्चा किए जाने वाले नीति प्रस्ताव

५ अक्टूबर २०१६ को कोलंबो, श्री लंका में आयोजित की जा रही खुली नीति बैठक (Open Policy Meeting) निम्नलिखित नीतिगत प्रस्तावों पर विचार करेगी।

इच्छुक प्रतिभागियों को मेलिंग सूची चर्चा में शामिल होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से या रिमोट प्रतिभाग के माध्यम से नीति की एसआईजी (Policy SIG) बैठक में भाग लेना चाहिए।

### प्रोप-116: फाइनल /8 ब्लॉक में आईपीवी4 पतों का प्रॉहिबिट ट्रांसफर

यह प्रस्ताव 'फाइनल /८' नीति (प्रोप-०६२) के तहत प्रत्यायोजित पतों को ट्रांसफर करने की क्षमता को अवरुद्ध करने का प्रयास करता है। ये ब्लॉक १०३/८ रेंज से हैं और इनका उद्देश्य एड्रेस स्पेस की एक छोटी सी मात्रा प्रदान करना है, जिससे कि मौजूदा और नए सदस्यों को आईपीवी६ इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक फाइनल ब्लॉक मिल पाए।

यह प्रस्ताव ऐसे उदाहरणों की ओर संकेत करता है जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि १०३/८ ब्लॉकों को बस ट्रांसफर के एकमात्र उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया है और यह इस रेंज में सभी संसाधनों के ट्रांसफर को रोकने के द्वारा इसका निषेध करने की कोशिश करता है।

### एसआईजी चेयर के चुनाव की प्रक्रियाओं में संशोधन करने का प्रस्ताव

यह प्रस्ताव वर्तमान एसआईजी चेयर (SIG Chair) की चुनाव प्रक्रियाओं में दो मुद्दों की पहचान करता है और इनका हल करने का प्रयास करता है। सबसे पहले, यह चुनाव में रिमोट प्रतिभागियों को पात्र मतदाताओं के रूप में वर्गीकृत करता है, और दूसरे, यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि चेयर और को-चेयर के लिए दो साल के कार्यकाल श्रेणीबद्ध हों, भले ही चेयर ने समय से पहले अपना इस्तीफा दे दिया हो।

### उपयोगी कड़ियाँ

- नीति चर्चा मेलिंग सूची के सदस्य बनें
  - <https://mailman.apnic.net/mailling-lists/sig-policy>
- एपीएनआईसी 42 (APNIC 42) के नीति पृष्ठ पर जाएँ
  - <https://conference.apnic.net/42/policy>
- APNIC ४२ के लिए रिमोट भागीदारी में भाग लें
  - <https://conference.apnic.net/42/program#webcasts>